

## समारोह स्थगित होने पर "संगम" पर रामधुनी कार्यक्रम सम्पन्न

दिनांक 28 को संगम भवन पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम महाराजश्री के आदेश पर स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप कुछ महानुभावों के पास स्थगन की सूचना नहीं पहुंच पाने और उनके संगम भवन पर आने की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें भी रामधुनी कार्यक्रम में शामिल कर आदर प्रदान करने की दृष्टि से राजसेवक परिषद ने अपनी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुये

आज दिनांक 28 अप्रैल को ही प्रातः 10बजे से राजसेवक परिषद के सलाहकार, कार्यकारिणी व निर्माण समिति के पदाधिकारियों द्वारा रामधुनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया

इस दौरान मुम्बई से श्री अरुण जी (पूर्व में नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय में कार्यरत)जिनके द्वारा भूमि आवंटन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी तथा जिन्हें समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया जाना था, को समय पर कार्यक्रम स्थगित होने सूचना नहीं मिलने पर पधारे। सभी ने उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए परिषद की ओर से आदर प्रदान किया गया।

साथ ही अहमदाबाद से अलवर निवासी श्री डी.के. विजय, अहमदाबाद विजयवर्गीय समाज के पूर्व अध्यक्ष (LG वाले) भी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू विजयवर्गीय (वरिष्ठा उपाध्यक्षा अहमदाबाद महिला संगठन) के साथ पधारने पर परिषद द्वारा इनका आदर प्रदान करते हुए आभार व्यक्त किया। इनके द्वारा संगम भवन का आत्मीयता से अवलोकन करते हुए श्री डी के विजय जी ने हर प्रकार का सहयोग देने की पुरजोर पेशकश की गई तथा वर्तमान में कमरों में लगने वाले 5 एसी देने की प्रथम धोषणा की गई।

इसके उपरान्ते वहां से सभी ने दोपहर 2 बजे प्रस्थान किया ा

राजसेवक परिषद महज पद और प्रतिष्ठा की मोहताज ना होकर समाज हित में सीधे तौर पर एक बड़े दायित्व को पूर्ण करने हेतु आप सबकी अपेक्षाओं और आशाओं के अनुरूप कार्यरत /प्रयासरत है एवं रहेगी ।

हम आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं कि हमारी उत्कृष्ट टीम राजसेवक परिषद व विजयवर्गीय समाज के हितों को ध्यान में रखकर तुलनात्मक रूप से और उच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करेगे।